

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2010—आश्विन 29, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. 16-एफ-1-32-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, शाजापुर, जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

स.क्र.	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया	वार्ड संख्या	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	वार्ड क्र. 01, महर्षि अरविंद वार्ड वार्ड क्र. 05, अब्दुल कलाम आजाद वार्ड वार्ड क्र. 25, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	-	-
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	07	वार्ड क्र. 04, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड वार्ड क्र. 14, चांदमलराम वार्ड वार्ड क्र. 18, जीवाजीराव वार्ड वार्ड क्र. 20, किशोरभाई त्रिवेदी वार्ड वार्ड क्र. 27, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड वार्ड क्र. 28, चिमनलाल जैन वार्ड वार्ड क्र. 29, नरेश मेहता वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनारक्षित	19	वार्ड क्र. 02, पं. प्रभागचन्द्र शर्मा वार्ड वार्ड क्र. 03, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड वार्ड क्र. 06, शिवाजी वार्ड वार्ड क्र. 07, सरदार पटेल वार्ड वार्ड क्र. 08, डॉ. अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्र. 09, जवाहर वार्ड वार्ड क्र. 10, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड वार्ड क्र. 11, पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन वार्ड वार्ड क्र. 12, महाराणा प्रताप वार्ड वार्ड क्र. 13, विवेकानन्द वार्ड वार्ड क्र. 15, गुरूनानक देव वार्ड वार्ड क्र. 16, हरदेव वार्ड वार्ड क्र. 17, तिलक वार्ड वार्ड क्र. 19, महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्र. 21, कमला नेहरू वार्ड वार्ड क्र. 22, चित्रगुप्त वार्ड वार्ड क्र. 23, शंकरराव ठाकरे वार्ड वार्ड क्र. 24, पं. चन्द्रशेखर भट्ट वार्ड वार्ड क्र. 26, राधास्वामी वार्ड
5.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति महिला के लिये आरक्षित वार्ड	02	वार्ड क्र. 01, महर्षि अरविंद वार्ड वार्ड क्र. 25, पं. दीनदयाल उपाध्याय
6.	अ.ज.जा. आरक्षित वार्ड में से अ.ज.जा. महिला के लिए आरक्षित वार्ड.	-	-
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये आरक्षित वार्ड.	04	वार्ड क्र. 04, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड वार्ड क्र. 14, चांदमलराम वार्ड वार्ड क्र. 18, जीवाजीराव वार्ड वार्ड क्र. 29, नरेश मेहता वार्ड
8.	महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 5, 6, 7 के अलावा आरक्षित वार्ड.	09	वार्ड क्र. 02, पं. प्रभातचन्द्र शर्मा वार्ड वार्ड क्र. 03, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड वार्ड क्र. 11, पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन वार्ड वार्ड क्र. 12, महाराणा प्रताप वार्ड वार्ड क्र. 19, महात्मा गांधी वार्ड वार्ड क्र. 21, कमला नेहरू वार्ड वार्ड क्र. 22, चित्रगुप्त वार्ड वार्ड क्र. 24, पं. चन्द्रशेखर भट्ट वार्ड वार्ड क्र. 26, राधास्वामी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-16-1-32-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत भेड़ाघाट, जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4-दीन दयाल उपाध्याय वार्ड 8-महाराणा प्रताप वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	3-महात्मा गांधी वार्ड 6-राम मनोहर लोहिया वार्ड 7-सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	9-रानी दुर्गावती वार्ड 12-पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 5-मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 14-डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	4-दीन दयाल उपाध्याय वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	7-सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड 3-महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	5-मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 9-रानी दुर्गावती वार्ड
7.	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) कुल आरक्षित वार्ड.	03	1-शिवाजी वार्ड 11-रविशंकर शुक्ल वार्ड 13-लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

अधि. 16 क्र. एफ-1-32-10-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत ओरछा, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

कुल वार्डों की संख्या 15

आरक्षण वर्ष 2010

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	आरक्षित वार्डों की संख्या	आरक्षित वार्डों के क्र. एवं नाम
(1)	(2)	(3)	वार्ड वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	05 अम्बेडकर वार्ड 07 हरदौल वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	03 गोंडवाना वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	08 कवि केशव वार्ड 10 बेतवा वार्ड 12 छारद्वारी हनुमान वार्ड 13 लोटना वार्ड
4.	अनारक्षित	08	01 ओरछा स्टेशन वार्ड 02 आजाद वार्ड 04 मकड़ारिया वार्ड 06 शास्त्री वार्ड 09 रामजानकी वार्ड 11 चन्द्रसखी वार्ड 14 सिंहपुरा वार्ड 15 लवकुश वार्ड
5.	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	01	05 अम्बेडकर वार्ड
6.	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	-	-
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	10 बेतवा वार्ड 13 लोटना वार्ड
8.	अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित वार्ड	05	01 ओरछा स्टेशन वार्ड 02 आजाद वार्ड 04 मकड़ारिया वार्ड 11 चन्द्रसखी वार्ड 14 सिंहपुरा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.